



आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और उत्पाद शुल्क:
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL GST & EXCISE,



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,

रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142

Email: cexappealsrajkot@gmail.com

सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

क अपील / फाइल संख्या /
Appeal / File No.
V2/43 & 44/GDM/2017

मूल आदेश सं /
O.I.O. No.
ST/646 & 648/2016-17

दिनांक /
Date
27.02.2017

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-200-TO-201-2017-18

आदेश का दिनांक /
Date of Order: 09.03.2018

जारी करने की तारीख /
Date of issue:

16.03.2018

Passed by **Shri Lalit Prasad, Commissioner, Central Goods and Service Tax & Central Excise, Rajkot**

अधिसूचना संख्या 26.18/दिनांक (टी.एन) शु.उ.के-2016/10 2016 के साथ पढ़े बोर्डे ऑफिस आदेश सं . 18/दिनांक .टी.एस-2016/0411 के अनुसरण में 2016 श्री ललित प्रसाद आयुक्त , केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और उत्पाद शुल्क ,राजकोट को विलत अधिनियम 1994 की धारा 79की 1994केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , के अंतर्गत दर्ज अधिार की गई अपीलों के सन्दर्भ में आदेश पारित करने के उद्देश्य से अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.

In pursuance to Board's Notification No. 26/2017-C.Ex.(NT) dated 17.10.2017 read with Board's Order No. 05/2017-ST dated 16.11.2017, Shri Lalit Prasad, Commissioner, Central Goods and Service Tax & Central Excise, Rajkot has been appointed as Appellate Authority for the purpose of passing orders in respect of appeals filed under Section 35 of Central Excise Act, 1944 and Section 85 of the Finance Act, 1994.

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :
घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellants & Respondent :-
M/s Laviosa Trimex Industries P. Ltd., Survey No. 388, Bhuj-Mandvo Highway, P.O. Box. No 14 Village : Pundi Taluka Mandvi- Kutch

इस आदेश(अपील) से व्यक्ति कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

- (A) सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं विलत अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।/
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-
- (i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.
- (ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, , द्वितीय तल, बहुमाली शकन असावा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए।/
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above



- (iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

- (B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियों संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। /

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टैट) के प्रति अपील के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

- धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
- सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
- सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्त यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगा।

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

- amount determined under Section 11 D;
- amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.



(C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India:

इस आदेश की पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित मामलों में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम पैरालफ़ के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- (ii) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। /
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
- (iii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केंद्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- (iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। /
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केंद्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- (vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। /
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। /
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- (D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपरोक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पेट्री कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलिय न्यायाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
- (E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
- (F) सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलिय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- (G) उच्च अपीलिय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। /
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in



:: ORDER-IN-APPEAL ::

Being aggrieved with the below tabulated Orders-in-Original (**hereinafter referred to as impugned order**) passed by the Assistant Commissioner, Service Tax Division, Gandhidham (**hereinafter referred to as Lower Adjudicating Authority**) M/s. Laviosa Trimex Industries Private Limited, Survey No. 388, Bhuj - Mandvi Highway, P. O. Box No. 14, Village: Pundi, Taluka: Mandvi (Kutch) (**hereinafter referred to the appellants**) have filed following appeals.

Sr. No.	Order-in-Original		Appeal Number
	Number	Date	
1	ST/646/2016-17	27.02.2017	43/GDM/2017
2	ST/648/2016-17	27.02.2017	43/GDM/2017

2. The facts of the case are that the appellant are merchant exporters and have filed following tabulated refunds seeking refund of Service Tax paid by them on the services utilized by them during the course of export under Notification No. 41/2012-Service Tax dated 29.06.2012, as amended (**hereinafter referred to as the said Notification**)

Period of refund	Date of refund application	Date of receipt of refund application	Amount of refund claimed
April, 2015 to June, 2015	14.02.2017	16.02.2017	2,61,549/-
July, 2015 to October, 2015	14.02.2017	16.02.2017	2,56,269/-

3.1 The Lower Adjudicating Authority while processing both refund claims observed that clause 3(g) of the said notification clearly stipulates that the claim for rebate of service tax paid on the specified services used for export of goods shall be filed within one year from the date of export of the said goods. Further, as per explanation to clause 3(g) of the said notification the date of export shall be the date on which the proper officer of Customs makes an order permitting clearance and loading of the said goods for exportation under section 51 of the Customs Act, 1962.

3.2 Thus, in the case of claim for the period from April, 2015 to June, 2015, from the Table A appearing at Para 4 of Order-in-Original



No: ST/646/2016-17 dated 27.02.2017, the first date of order of proper officer of Customs permitting clearance and loading of exportation under section 51 of the Customs Act, 1962 was 04.04.2015 and the last date was 30.06.2015, whereas the claim has been filed on 16.02.2017. Thus it was time barred.

3.3 Likewise, in the case of claim for the period from July, 2015 to October, 2015, from the Table A appearing at Para 4 of Order-in-Original No: ST/648/2016-17 dated 27.02.2017, the first date of order of proper officer of Customs permitting clearance and loading of exportation under section 51 of the Customs Act, 1962 was 03.07.2015 and the last date was 08.10.2015, whereas the refund has been filed on 16.02.2017. Thus it was time barred.

4. Being aggrieved with the impugned orders, rejecting their refund claims, the appellants have filed present appeals on the single ground that the impugned orders have been issued without issuance of Show Cause Notice and granting personal hearing to them. Therefore, there is a violation of principles of natural justice. They placed reliance on the case law of **Xiling India Technology Services - 2016 (44) STR 129 (Tri. Hyd)** in this regard.

5. The Central Board of Excise and Customs vide Notification No: 26/2017-Cx(NT) dated 17.10.2017 read with Order No: 05/2017-Service Tax dated 16.11.2017, has appointed undersigned as Appellate Authority under Section 85 of the Finance Act, 1994 for the purpose of deciding these appeals.

6. Accordingly, common personal hearing of these two appeals was fixed on 19.01.2018. However, Shri Vikas Mehta, Consultant and authorized representative vide his letter dated 18.01.2018 sought an adjournment. Accordingly, hearing was again re-fixed on 09.02.2018, however none appeared for the personal hearing fixed on 09.02.2018. Therefore, third and final hearing was fixed on 06.03.2018. In response, the appellant vide their letter dated 05.03.2018 waived the opportunity of personal hearing and submitted that these appeals were filed on



accounts of the facts that the impugned orders were passed without any issuance of Show Cause Notice and no order can be passed or sustained without issuance of Show Cause Notice to them.

Discussions & Findings :

7. I have carefully gone through the entire appeal memorandum and the submissions made by the appellants. I find that since the facts and circumstances of both these appeals are common therefore, I propose to decide the same by this common order. I further find that since these appeals are against rejection of refund therefore there is no need for compliance to provisions of Section 35F(i) of Central Excise Act, 1944 made applicable in Service Tax matters vide Section 83 of the Finance Act, 1994.

8. I find that there are two points required to be decided in the present proceedings:

- (i) Whether there is any violation of the principles of natural justice while deciding the refund claims filed by the appellants by the Lower Adjudicating Authority?
- (ii) Whether impugned orders of the Lower Adjudicating Authority rejecting the refund claims of the appellants on the point of limitation are just and proper?

9.1 I find that the claim has been filed under Notification No. 41/2012-ST dated 29-06-2012, as amended which grants rebate of service tax paid on the taxable services which are received by an exporter of goods and used for export of goods subject to certain conditions prescribed therein. I find that Lower Adjudicating Authority has pointed out that the claims are time-barred. On the other hand I also find that Lower Adjudicating Authority while deciding the refund applications have neither issued Show Cause Notice nor granted personal hearing to the appellant.



9.2 I find that the appellants have stated that no order can be passed without any Show Cause Notice. I find from the impugned orders that there is no reference of Show Cause Notices issued and hearing granted to the appellants before issuance of impugned orders.

9.3 I find that Hon'ble High Court of Calcutta in judgment in the case of **Kanji Savji Parekh (Cal) Pvt Ltd - 2010 (262) ELT 83 (Cal)** has held that act of passing an order without Show Cause Notice and personal hearing is in violation of principles of natural justice. Identical is the view of the Hon'ble High Court of Bombay in the case of **Dr. Balabhai Nanavati Hospital & Nanavati Hospital Medical Research Centre - 2009 (233) ELT 442 (Bom)** and Hon'ble High Court of Karnataka in the case of **J. J. M. Medical College - 2006 (193) ELT 401 (Kar)**. Similarly, Hon'ble Tribunal in their decision in the case of **Golconda Engineering Enterprises Private Limited reported at 2007 (218) ELT 625 (Tri. Bang)** has taken similar view. Thus, I find that in this case there is a violation of principles of natural justice.

10. Therefore, to meet the ends of justice, I set-aside the impugned orders of the Lower Adjudicating Authority on the grounds that it has been passed without observing the principles of natural justice in light of the decision in the case of **Singh Alloys (P) Ltd - 2012 (284) ELT 97 (Tri. Delhi)**, and remand the matter back to Lower Adjudicating Authority i.e. Dy./Asstt. Commissioner of Service Tax Division, Gandhidham, with a direction to decide the matter afresh on merits by following principles of natural justice.

11. In holding this, I also rely upon the case law of **Honda Seil Power Products Ltd.- 2013 (287) ELT 353 (Tri. Del.)** wherein a similar view has been taken as regard inherent power of the appellate authority to remit back the matters under the provisions of Section 35A(3) of the Central Excise Act, 1944. Further, **Hon'ble Gujarat High Court**, in **Tax Appeal No. 276 of 2014**, in the case of **Associated Hotels Ltd.** has held that even after amendment in Section 35A *ibid*, after 10-05-2011, Commissioner of Central Excise would retain the powers of remand. I find that provisions of Section 35A of the Central Excise Act, 1944 are



made applicable in Service Tax matters vide Section 83 of the Finance Act, 1994.

12. Accordingly, without expressing any opinion on admissibility of the refund or otherwise, the appeals of the Appellant are disposed by way of remand with a direction to the Lower Adjudicating Authority to decide the refund claim of the Appellant on merits after following principles of natural justice.

F. N. V.2/43/GDM/2017
Place: Rajkot.

Dated: 09.03.2018



(LALIT PRASAD)
COMMISSIONER, CGST & CEX, RAJKOT/
COMMISSIONER (APPEALS-III),
CGST & CEX, RAJKOT

By Speed Post

To,
M/s. Laviosa Trimex Industries Private Limited,
Survey No. 388, Bhuj - Mandvi Highway,
P. O. Box No. 14,
Village: Pundi,
Taluka: Mandvi (Kutch)

Copy to:

- 1) The Chief Commissioner, GST & Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad.
- 2) The Commissioner, GST & Central Excise, Kutch.
- 3) The Commissioner, GST & Central Excise, Rajkot.
- 4) The Assistant Commissioner, GST & CEX, Bhuj
- 5) Appeal File Number 44/GDM/2017
- 6) Guard File.



सत्यापित,

16/03/2018
प्रबंध पोस्ट
राजकोट (कच्छ)

